



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

1128
18/6/2001

सं. 2]

नई दिल्ली, मंगलवार, जनवरी 2, 2001/पौष 12, 1922

No. 2]

NEW DELHI, TUESDAY, JANUARY 2, 2001/PAUSA 12, 1922

जल भूतल परिवहन मंत्रालय

(पोत परिवहन विभाग)

(पत्तन पक्ष)

शुद्धिपत्र

नई दिल्ली, 2 जनवरी, 2001

सा.का.नि. 2(अ).—भारत सरकार, जल भूतल परिवहन मंत्रालय की दिनांक 8-3-2000 की अधिसूचना सा.का.नि. सं. 233(अ) की अनुसूची में यहाँ संलग्न प्रपत्र सं. I से IV को मुरगांव पत्तन कर्मचारी (अस्थायी सेवा) विनियम, 2000 के साथ परिशिष्ट के रूप में लगाया जाए।

[फा. सं. पीआर-12016/6/2000-पीई-1]

के. यो. राव, संयुक्त सचिव

अनुलग्न

फार्म-1

मुरगांव पत्तन कर्मचारी (अस्थायी सेवा) विनियम, 1964 के विनियम 3(1) के अधीन जारी सेवा समाप्ति की नोटिस।

मुरगांव पत्तन कर्मचारी (अस्थायी सेवा) विनियम, 1964 के विनियम-3 के उप-विनियम (1) के अनुसरण में श्री/श्रीमती/कु. _____ को एतद्वारा नोटिस दी जाती है

कि यह नोटिस जारी किए जाने अथवा, जैसी भी स्थिति हो, उसे दिए जाने की तारीख से एक महीने की अवधि की समाप्ति की तारीख से उसकी सेवाएं समाप्त होंगी।

स्थान : _____

(नियुक्ति प्राधिकारी के हस्ताक्षर)

दिनांक : _____

(नाम)

(पदनाम)

पावती

संदर्भ सं. _____ दिनांक _____ के तहत मुझे सौंपी गई सेवा समाप्ति की नोटिस मुझे आज प्राप्त होने की पावती मैं एतद्वारा प्रस्तुत करता/करती हूँ।

स्थान : _____

(कर्मचारी के हस्ताक्षर)

(नाम)

दिनांक : _____

(पदनाम)

फार्म-11

मुरगांव पत्तन कर्मचारी (अस्थायी सेवा) विनियम, 1964 के विनियम-3 के उप-विनियम (1) के परन्तुक के अधीन जारी सेवा समाप्ति का आदेश

मुरगांव पत्तन कर्मचारी (अस्थायी सेवा) विनियम, 1964 के विनियम-3 के उप-विनियम (1) के परन्तुक के अनुसरण में श्री/श्रीमती/कु. _____ की सेवा को एतद्वारा तत्काल समाप्त किया जाता है। यह भी निवेश दिया जाता है कि नोटिस की अवधि के लिए अथवा, जैसी भी स्थिति है, एक महीने के कम नोटिस की अवधि के लिए अपने वेतन और

भत्तों की रकम के बराबर की रकम का दावा करने के लिए हकदार होगा जिस दर पर वह सेवा समाप्ति के तत्काल पहले प्राप्त करता था/प्राप्त करती थी ।

स्थान : _____

(नियुक्ति प्राधिकारी के हस्ताक्षर)

दिनांक : _____

(नाम)

(पदनाम)

फॉर्म-III

मुरगांव पत्तन कर्मचारी (अस्थायी सेवा) विनियम, 1964 के विनियम 3(1) के अधीन जारी सेवा समाप्ति की नोटिस जब नियुक्ति प्राधिकारी अव्यत है ।

मुरगांव पत्तन कर्मचारी (अस्थायी सेवा) विनियम, 1964 के विनियम-3 के उप-विनियम (1) के अनुसरण में श्री/श्रीमती/कु. _____ को अध्यक्ष द्वारा एतद्वारा नोटिस दी जाती है कि यह नोटिस जारी किए जाने अथवा, जैसी भी स्थिति हो, उसे दिए जाने की तारीख से एक महीने की अवधि की समाप्ति की तारीख से उसकी सेवाएं समाप्त होंगी ।

अध्यक्ष के आदेश तथा नाम से ।

स्थान : _____

(अध्यक्ष के नाम से दस्तावेजों को प्रमाणित करने के लिए प्राधिकृत किए गए अधिकारी के हस्ताक्षर)

दिनांक : _____

(नाम)

(सचिव)

पावती

संदर्भ सं. _____ दिनांक _____ के तहत मुझे सौंपी गई सेवा समाप्ति की नोटिस मुझे आज प्राप्त होने की पावती मैं एतद्वारा प्रस्तुत करता/करती हूँ ।

स्थान : _____

(कर्मचारी के हस्ताक्षर)

दिनांक : _____

(नाम)

(पदनाम)

फार्म-IV

मुरगांव पत्तन कर्मचारी (अस्थायी सेवा) विनियम, 1964 के विनियम-3 के उप-विनियम (1) के परन्तुक के अधीन जारी सेवा समाप्ति का आदेश, जब नियुक्ति प्राधिकारी अध्यक्ष है।

मुरगांव पत्तन कर्मचारी (अस्थायी सेवा) विनियम, 1964 के विनियम-3 के उप-विनियम (1) के परन्तुक के अनुसरण में श्री/श्रीमती/कु. _____ की सेवा को एतद्वारा तत्काल समाप्त किया जाता है और यह भी निदेश दिया जाता है कि नोटिस की अवधि के लिए अथवा, जैसी भी स्थिति है, एक महीने से कम नोटिस की अवधि के लिए अपने वेतन और भत्तों की रकम के बराबर की रकम का दावा करने के लिए हकदार होगा जिस दर पर वह सेवा समाप्ति के तत्काल पहले प्राप्त करता था/प्राप्त करती थी।

अध्यक्ष के आदेश से तथा नाम से।

स्थान : _____

(अध्यक्ष के नाम से दस्तावेजों को प्रमाणित करने के लिए प्राधिकृत किए गए अधिकारी के हस्ताक्षर)

दिनांक : _____

(नाम)

(सचिव)

फार्म-V

जब नियुक्ति प्राधिकारी अध्यक्ष हो तब कर्मचारी को पहले से ही दी गई सेवा समाप्ति की नोटिस के प्रचलन के दौरान मुरगांव पत्तन कर्मचारी (अस्थायी सेवा) विनियम, 1964 के विनियम-3 के उप-विनियम (1) के परन्तुक के अधीन जारी सेवा समाप्ति का आदेश।

श्री/श्रीमती/कु. _____ की सेवा समाप्ति की नोटिस सं. _____ दिनांक _____ में संशोधन करते हुए तथा मुरगांव पत्तन कर्मचारी (अस्थायी सेवा) विनियम, 1964 के विनियम-3 के उप-विनियम-1 के परन्तुक के अनुसरण में अध्यक्ष, श्री/श्रीमती/कु. _____ की सेवाओं को एतद्वारा तत्काल समाप्त करते हैं तथा यह भी निदेश दिया जाता है कि नोटिस की अवधि के लिए अथवा, जैसी भी स्थिति है, एक महीने के कम नोटिस की अवधि के लिए अपने वेतन और भत्तों की

रकम के बराबर की रकम का दावा करने के लिए हकदार होगा जिस दर पर वह सेवा समाप्ति के तत्काल पहले प्राप्त करता था/प्राप्त करती थी ।

अध्यक्ष के आदेश से तथा नाम से ।

स्थान : _____

(अध्यक्ष के नाम से दस्तावेजों को
प्रमाणित करने के लिए प्राधिकृत किए
गए अधिकारी के हस्ताक्षर)

विनांक : _____

(नाम)

(सचिव)

फार्म-VI

कर्मचारी को पहले से ही दी गई सेवा समाप्ति की नोटिस के प्रचलन के दौरान मुरगांव पत्तन कर्मचारी (अस्थायी सेवा) विनियम, 1964 के विनियम-3 के उप-विनियम (1) के परन्तुक के अधीन जारी सेवा समाप्ति आदेश ।

श्री/श्रीमती/कु. _____ की सेवा समाप्ति की नोटिस सं. _____ विनांक _____ में संशोधन करते हुए तथा मुरगांव पत्तन कर्मचारी (अस्थायी सेवा) विनियम, 1964 के विनियम-3 के उप-विनियम-1 के परन्तुक के अनुसरण में श्री/श्रीमती/कु. _____ की सेवाओं को एतद्द्वारा तत्काल समाप्त किया जाता है । यह भी निदेश दिया जाता है कि नोटिस की अवधि के लिए अद्यया, जैसी भी स्थिति है, एक महीने से कम नोटिस की अवधि के लिए अपने वेतन और भत्तों की रकम के बराबर की रकम का दावा करने के लिए हकदार होगा जिस दर पर वह सेवा समाप्ति के तत्काल पहले प्राप्त करता था/प्राप्त करती थी ।

स्थान : _____

(नियुक्ति प्राधिकारी के हस्ताक्षर)

विनांक : _____

(नाम)

(सचिव)

MINISTRY OF SURFACE TRANSPORT

(Department of Shipping)

(Ports Wing)

CORRIGENDUM

New Delhi, the 2nd January, 2001

G.S.R. 2(E).—In the schedule to the Government of India, Ministry of Surface Transport Notification G S R No. 233(E) dated 8-3-2000, the Forms No. I to IV annexed hereto may be appended to the Mormugao Port Employees' (Temporary Service) Regulations, 2000.

[F No. PR-12016/6/2000-PE-I]

K. V. RAO, Jt. Secy.

ANNEXURES

FORM - I

Notice of termination of service issued under Regulation 3 (1) of the Mormugao Port Employees' (Temporary Service) Regulations, 1964.

In pursuance of sub-regulation (1) of Regulation 3 of the Mormugao Port Employees' (Temporary Service) Regulations, 1964, Shri/Smt/Kum.

_____ is hereby given notice that his/her services shall stand terminated with effect from the date of expiry of a period one month from the date on which this notice is served on, or, as the case may be, tendered to him/her.

Station : _____

Signature of the Appointing Authority

Date: _____

(Name)

(Designation)

ACKNOWLEDGEMENT

I hereby acknowledge the receipt on this day the Notice of termination of my service handed over to me vide reference no. _____ dated _____

Station : _____

Signature of the employee.

(Name)

Date: _____

(Designation)

FORM - II

Order of termination of service issued under the proviso to sub-regulation (1) of Regulation 3 of the Mormugao Port Employees' (Temporary Service) Regulations, 1964.

In pursuance of the proviso to sub-regulation (1) of Regulation 3 of the Mormugao Port Employees' (Temporary Service) Regulations, 1964, the services of Shri/Smt./Kum. _____ are hereby terminated forthwith. It is also directed that he/ she shall be entitled to claim a sum equivalent to the amount of his/her pay *plus* allowances for the period of notice at the same rates at which he/she was drawing them immediately before the termination of his/her service or, as the case may be, for the period by which such notice falls short of one month.

Station: _____

Signature of the Appointing Authority

Date: _____

(Name)

(Designation)

FORM - III

Notice of termination of service issued under Regulation 3(1) of the Mormugao Port Employees' (Temporary Service) Regulations, 1964, where the Appointing Authority is the Chairman.

In pursuance of sub-regulation (1) of Regulation 3 of the Mormugao Port Employees' (Temporary Service) Regulations, 1964, the Chairman hereby gives notice to Shri/Smt./Kum. _____ that his/her services shall stand terminated with effect from the date of expiry of a period of one month from the date on which this notice is served on, or, as the case may be, tendered to him/her.

By order and in the name of the Chairman.

Station : _____

Signature of the authority empowered to
authenticate documents in the name of the
Chairman.

Date: _____

(Name)

(Secretary)

ACKNOWLEDGEMENT

I hereby acknowledge the receipt of this day the Notice of termination of my service handed over to me vide reference no. _____ dated _____

Station: _____

Signature of the employee: _____

Date: _____

(Name)

(Designation)

FORM - IV

Order of termination of service issued under the proviso to sub-regulation (1) of Regulation 3 of Mormugao Port Employees' (Temporary Service) Regulations, 1964, where the Appointing Authority is the Chairman.

In pursuance of the proviso to sub-regulation (1) of Regulation 3 of the Mormugao Port Employees' (Temporary Service) Regulations, 1964, the Chairman hereby terminates forthwith the services of Shri/Smt./Kum. _____ and directs that he/she shall be entitled to claim a sum equivalent to the amount of his/her pay *plus* allowances for the period of notice at the same rates at which he/she was drawing them immediately before the termination of his/her service, or as the case may be, for the period by which such notice falls short of one month.

By order and in the name of the Chairman.

Station: _____

Signature of the authority empowered to
authenticate documents in the name of
the Chairman.

Date: _____

(Name)

(Secretary)

16-11/2001

FORM - V

Order of the termination of service issued under the proviso to sub-regulation (1) of Regulation 3 of Mormugao Port Employees' (Temporary Service) Regulations, 1964, during the currency of the notice of termination of services already served on him, where the Appointing Authority is the Chairman.

In modification of Notice no _____ dated _____ of termination of service of Shri/Smt/Kum. _____ and in pursuance of the proviso to sub-regulation (1) of Rule 3 of the Mormugao Port Employees' (Temporary Service) Regulations, 1964, the Chairman hereby terminates forthwith the services of Shri/Smt./Kum. _____ and directs that he/she shall be paid a sum equivalent to the amount _____ of pay and allowances for the period by which the said notice falls short of one month calculated at the same rates at which he/she was drawing them immediately before the date of this order.

By order and in the name of the Chairman.

Station: _____

Signature of the authority empowered
to authenticate documents in the name of
the Chairman.

Date : _____

(Name)

Secretary

FORM - VI

Order of the termination of service Issued under the proviso to sub-regulation (1) of Regulation 3 of the Mormugao Port Employees' (Temporary Service) Regulations, 1964, during the currency of the notice of termination of services already served on him.

In modification of Notice no _____ dated _____ of termination of service of Shri/Smt./Kum. _____ and in pursuance of the proviso to sub-regulation (1) of Regulation 3 of the Mormugao Port Employees' (Temporary Service) Regulations, 1964, the services of Shri/Smt./Kum. _____ are hereby terminated forthwith. It is also directed that he/she shall be paid a sum equivalent to the amount of pay and allowances for the period by which the said notice falls short of one month calculated at the same rates at which he/she was drawing them immediately before the date of this order.

Station: _____

Signature of the Appointing Authority

Date: _____

(Name)

Secretary

